



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 09 अप्रैल, 2021 / 19 चैत्र, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

**Through Process Server**

IN THE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA

(EXTRA-ORDINARY CIVIL ORIGINAL JURISDICTION)

C.W.P.O.A. No. 34 of 2019

*Pawan Kumar & Ors.*

State of H.P. & Ors.

*Dated Shimla, the 5th April, 2021*

*... Petitioner(s)*

*Vs*

*...Respondent(s)*

**Notice to.— Respondents address as per list attached**

<i>Respondent No.</i>	<i>Roll No.</i>	<i>Name of Candidate</i>	<i>Department Allotted</i>
3		Ms Babita d/o sh. Rai Singh Village Chaindal P.O. Darkoti District Shimla (At Sr. No. 839)	
5	501003	ABHISHEK CHANDEL	HEALTH
6	501008	ABHISHEK THAKUR	I &PH
7	501015	AJAY KUMAR	HEALTH
8	501023	AJAY KUMAR	WOMEN & CHILD DEV.
9	501026	AJAY KUMAR DHIMAN	AGRICULTURE
10	501061	ANJANA KUMARI	ELEMENTARY EDUCATION
12	501080	ANIL KUMAR	HPSEBL
13	501093	ANITA KUMARI GAUTAM	SC&ST DEV. CORPORATION
14	501164	ARUN KUMAR	ANIMAL HUSBANDRY
15	501177	ASHOK KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
16	501191	BALBIR SINGH	FINANCE (T&A)
17	501196	BALVIR SINGH	AGRICULTURE
18	501204	BANDNA SHARMA	DC OFFICE MANDI
20	501220	CHAMAN LAL	RURAL DEVELOPMENT
23	501262	DHARMENDER KUMAR	HOME GUARD & CIVIL DEFENCE
24	501282	DIVESH KUMAR	PANCHAYATI RAJ
25	501287	GAURAV SONI	TRANSPORT
26	501299	HARI DASS	HEALTH
27	501312	INDU	HIGHER EDUCATION
29	501359	KANCHANA DEVI	HPSEBL
31	501372	KAVITA DEVI	ELEMENTARY EDUCATION
34	501455	MANOJ KUMAR	FOOD & CIVIL SUPPLIES
35	501473	MEENAKSHI	WOMEN & CHILD DEV.
36	501474	MEENAKSHI	HIGHER EDUCATION
37	501528	NARESH KUMAR	HPSEBL
38	501551	NEELAM KUMARI	HP BUILDING & OTHERS CONSTRUCTIONS WORKER WELFARE BOARD
39	501569	NEHA KAUNDAL	PROSECUTION
40	501575	NIKKU RAM	INDUSTRIES
41	501580	NISHA DEVI	HP BOSE
43	501591	NISHA DEVI	DC OFFICE BILASPUR
45	501635	PARVEEN KUMAR	DC OFFICE L&S
46	501670	POONAM KUMARI	ELEMENTARY EDUCATION
47	501725	RADHA KRISHAN	FINANCE (T&A)
48	501750	RAJENDER SINGH	DC OFFICE BILASPUR
49	501758	RAJESH KUMAR	FOREST
50	501768	RAJNI KANT	HIGHER EDUCATION
53	501816	RAVINDER KUMAR	FINANCE (T&A)
56	501913	SANJEEV KUMAR	HIGHER EDUCATION
57	501940	SAPNA DEVI	AGRICULTURE
58	501965	SATYENDER SINGH	PLANNING

59	501967	SAURAV SHARMA	HIGHER EDUCATION
60	501987	SHALINI JASWAL	PANCHAYATI RAJ
63	502040	SONU DEVI	INDUSTRIES
66	502059	SUMAN KUMAR	HIGHER EDUCATION
68	502068	SUNEEL KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
69	502076	SUNIL KUMAR	HIGHER EDUCATION
73	502134	TANVI THAKUR	AGRICULTURE
75	502159	USHA KUMARI	HPSEBL
76	502193	VIKASH SHARMA	HIGHER EDUCATION
77	502220	VINOD KUMAR	RURAL DEVELOPMENT
79	502234	VIPIN SHARMA	HIGHER EDUCATION
83	502330	ANCHAL	HPSEBL
93	502469	DEVINDER KUMAR	HPSEBL
95	502509	HITENDER SINGH	DC OFFICE CHAMBA
97	502542	KALYAN SINGH	DC OFFICE KANGRA
105	502633	MANOJ KUMAR	INDUSTRIES
110	502664	MUKESH KUMAR	HP PWD
114	502684	NAVEEN KUMAR	HIGHER EDUCATION
119	502775	PRITAM SINGH	HPSEBL
123	502819	RAJU	FINANCE (T&A)
129	502987	SUBHASH KUMAR	HIGHER EDUCATION
130	503004	SUNITA DEVI	WOMEN & CHILD DEV.
138	503088	VINOD KUMAR	HPSEBL
139	503090	VINOD KUMAR	FINANCE (T&A)
140	503094	VIPAN KUMAR	HP PWD
141	503111	YASHPAL SINGH	WOMEN & CHILD DEV.
142	503131	MUKESH KUMAR	HPSEBL
143	503179	ABHISHEK KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
144	503201	AJAY KUMAR	HPSEBL
145	503257	AMAN SHARMA	HPSEBL
146	503269	AMIT KUMAR	HPSEBL
147	503271	AMIT KUMAR	DC OFFICE HAMIRPUR
150	503301	ANAMIKA SHARMA	DC OFFICE HAMIRPUR
151	503333	ANIL KUMAR	HIGHER EDUCATION
152	503337	ANIT KUMAR	DC OFFICE HAMIRPUR
153	503383	ANJU CHAUDHARY	HPSEBL
154	503386	ANKIT GUPTA	ANIMAL HUSBANDRY
156	503442	ARVIND KUMAR	FOREST
158	503462	ARUN KUMAR	HIGHER EDUCATION
159	503468	ARUN KUMAR	DC OFFICE CHAMBA
160	503494	ASHISH KUMAR	DC OFFICE KANGRA
161	503496	ASHISH KUMAR	HPSEBL
162	503501	ASHISH SHARMA	ELEMENTARY EDUCATION
163	503508	ASHOK KUMAR	HIGHER EDUCATION
164	503509	ASHOK KUMAR	HP BOSE
165	503511	ASHOK KUMAR	FINANCE (T&A)
166	503516	ASHU BHATIA	HPSEBL
167	503536	ASWANI KUMAR	HPSEBL
168	503553	BABITA THAKUR	TECHNICAL EDUCATION
169	503613	CHAMAN LAL	DC OFFICE HAMIRPUR

170	503618	CHAMPA KUMARI	TECHNICAL EDUCATION
171	503626	CHANDER SHEKHAR	HEALTH
172	503644	DEEP KUMAR	LANGUAGE & CULTURE
173	503652	DEEPAK KUMAR	HIGHER EDUCATION
174	503653	DEEPAK KUMAR	FINANCE (T&A)
175	503658	DEEPAK SHARMA	DC OFFICE HAMIRPUR
176	503665	DEEPIKA PRAVESH	DC OFFICE BILASPUR
177	503686	DIKSHA GUPTA	DC OFFICE HAMIRPUR
178	503710	DINESH KUMAR	HIGHER EDUCATION
179	503722	DUNI CHAND	FINANCE (T&A)
180	503756	HARJINDER SINGH	SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
181	503765	HOSHIAR SINGH	CO-OPERATION
182	503771	INDU PATYAL	HP BOSE
183	503776	ISHA	ELEMENTARY EDUCATION
184	503795	JITENDER KUMAR	FOREST
185	503845	KAMLESH KUMARI	HIGHER EDUCATION
186	503851	KANCHAN KUMARI	HPSEBL
187	503857	KANCHNA DEVI	ANIMAL HUSBANDRY
188	503863	KAPIL DEV	HIGHER EDUCATION
189	503869	KARAM SINGH	FOREST
190	503873	KARTAR CHAND	HIGHER EDUCATION
191	503907	KRISHAN CHAND	ANIMAL HUSBANDRY
192	503932	KUMARI KALPNA	HPSEBL
194	503998	MANDEEP KUMAR	HEALTH
195	504009	MANISH KUMAR	HP PWD
196	504012	MANISH KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
197	504024	MANJEET KUMAR	HEALTH
198	504025	MANJEET KUMAR	HPSEBL
199	504033	MANJU	HEALTH
201	504059	MANOJ KUMAR	INDUSTRIES
202	504063	MANOJ KUMAR	HPSEBL
203	504088	MEENU DEVI	URBAN DEVELOPMENT
204	504128	MUKESH KUMAR	HP BOSE
205	504135	MUKESH KUMARI	HPSEBL
207	504160	NARESH DHATWALIA	HPSEBL
208	504185	NAVJEET SINGH	HP PWD
209	504195	NEELAM KUMARI	HEALTH
210	504202	NEELAM KUMARI	SC&ST DEV. CORPORATION
211	504212	NEERAJ CHAUHAN	DC OFFICE HAMIRPUR
212	504231	NEHA THAKUR	TECHNICAL EDUCATION
213	504259	NISHA KUMARI	HIGHER EDUCATION
214	504272	NITIN KUMAR GUPTA	HPSEBL
215	504282	OM SHARAN	TECHNICAL EDUCATION
216	504310	PANKAJ KUMAR	TECHNICAL EDUCATION
217	504336	PAWAN KUMAR	I & PH
218	504339	PAWAN KUMAR	HPSEBL
219	504340	PAWAN KUMAR	HIGHER EDUCATION
220	504405	POONAM SHARMA	HP BOSE
221	504432	PRAVEEN KUMAR	SC&ST DEV. CORPORATION

222	504444	PRITAN DEVI	HEALTH
223	504455	PRIYANKA CHAUHAN	DC OFFICE HAMIRPUR
224	504480	PUSHP RAJ	HIGHER EDUCATION
225	504481	PUSHP LATA	WOMEN & CHILD DEV.
226	504484	PUSHPA DEVI	WOMEN & CHILD DEV.
227	504486	PUSHPINDER	TECHNICAL EDUCATION
228	504509	RAJ KUMAR	I &PH
229	504513	RAJ KUMAR	HOME GUARD & CIVIL DEFENCE
230	504518	RAJAN CHOUDHARY	HIGHER EDUCATION
231	504537	RAJENDER KUMAR	SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
232	504554	RAJESH KUMAR	DC OFFICE HAMIRPUR
233	504569	RAJKRISHAN DHIMAN	DC OFFICE HAMIRPUR
234	504597	RAKESH KUMAR	PANCHAYATI RAJ
235	504603	RAKESH KUMAR	ELECTION
236	504609	RAKESH KUMAR	I &PH
237	504610	RAKESH KUMAR	FINANCE (T&A)
238	504613	RAKESH RANA	HPSEBL
239	504634	RANBIR SINGH	HPSEBL
240	504655	RASEED MOHAMMAD	HOME GUARD & CIVIL DEFENCE
242	504665	RAVI KUMAR	DC OFFICE HAMIRPUR
243	504677	RAVINDER KUMAR	HPSEBL
244	504698	REENA KUMARI	HEALTH
245	504725	REKHA DEVI	HPSEBL
246	504750	RITA DEVI	HEALTH
247	504796	SAMIKSHA SHARMA	TECHNICAL EDUCATION
248	504847	SANJEEV PATIAL	I &PH
250	504857	SANTOSH KUMAR	I &PH
251	504870	SAPNA	HIGHER EDUCATION
252	504888	SAPNA RANI	HEALTH
253	504903	SATISH KUMAR	HPSEBL
254	504904	SATISH KUMAR	I &PH
255	504968	SHASHI BALA	PRISON & CORRECTIONAL SERVICES
257	504982	SHASHI PAUL	HEALTH
258	505024	SHIWALI KATOCH	TECHNICAL EDUCATION
259	505029	SHOBHA SHARMA	DC OFFICE HAMIRPUR
260	505031	SHRIKANT KUMAR	HIGHER EDUCATION
262	505129	SUNIL KUMAR	HEALTH
263	505137	SUNIL KUMAR	HPSEBL
264	505195	SURJEET SINGH	HIGHER EDUCATION
265	505203	SUSHEEL KUMAR	HIGHER EDUCATION
269	505305	VIJAY KUMAR	DC OFFICE HAMIRPUR
270	505307	VIJAY KUMAR	SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
271	505309	VIJAY KUMAR	HIGHER EDUCATION
272	505316	VIKAS BHARADWAJ	ELEMENTARY EDUCATION
273	505318	VIKAS KAUSHIV	WOMEN & CHILD DEV.
274	505331	VIKASH KUMAR	FINANCE (T&A)
275	505378	VINOD VERMA	HPSEBL

277	505450	SURJITENDER	WOMEN & CHILD DEV.
278	505453	VINAMAR PRASHAR	URBAN DEVELOPMENT
279	505546	AJAY KUMAR	DC OFFICE UNA
280	505557	AJAY KUMAR	DC OFFICE KANGRA
281	505558	AJAY KUMAR	I &PH
282	505562	AJAY KUMAR	STATE ELECTION COMMISSION
283	505572	AJEET KUMAR	DC OFFICE KANGRA
284	505579	AKSHAY KAPOOR	HEALTH
285	505587	AMAN	HPSEBL
287	505622	AMIT DOGRA	HIGHER EDUCATION
288	505627	AMIT KUMAR	DC OFFICE KANGRA
289	505629	AMIT KUMAR	HPSEBL
290	505630	AMIT KUMAR	HP BOSE
291	505632	AMIT KUMAR	HIGHER EDUCATION
292	505644	AMIT RANA	HIGHER EDUCATION
293	505666	ANIL KUMAR	FOREST
294	505674	ANIL KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
295	505680	ANIL KUMAR	FOOD & CIVIL SUPPLIES
296	505685	ANIL KUMAR	HPSEBL
298	505700	ANISH KUMAR	FINANCE (T&A)
300	505749	ANKIT DOGRA	DC OFFICE KANGRA
301	505765	ANKUSH KUMAR	DC OFFICE KANGRA
302	505773	ANOOP KUMAR	CO-OPERATION
303	505792	ANUJ KUMAR	HEALTH
305	505841	ARUN SINGH	DC OFFICE CHAMBA
306	505844	ARUNA DEVI	HP BOSE
307	505854	ARVIND SOOD	HPSEBL
308	505887	ASHISH WALIA	DC OFFICE KANGRA
309	505902	ASHWANI KUMAR	I &PH
310	505904	ASHWANI KUMAR	SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
311	505921	AVINASH CHAUDHARY	HPSEBL
312	505924	AVINASH KUMAR	I &PH
313	505930	AVNEESH KUMAR	DC OFFICE KANGRA
314	505949	BALBIR KUMAR	HIGHER EDUCATION
316	505997	BIRANJANA KUMARI	HIMUDA
317	506010	CHANDER SHEKHAR	HIGHER EDUCATION
318	506080	DINESH KUMAR	HP BOSE
319	506106	GAURAV KUMAR	WOMEN & CHILD DEV.
321	506133	GURMEET KUMAR	TECHNICAL EDUCATION
322	506134	GURMEET SINGH	AGRICULTURE
323	506151	HEM RAJ	I &PH
325	506179	JAGDISH CHAND	TECHNICAL EDUCATION
327	506187	JASBIR SINGH	HP PWD
329	506197	JATINDER KUMAR	HEALTH
330	506205	JITENDER KUMAR	AGRICULTURE
331	506237	KALPNA KUMARI	WOMEN & CHILD DEV.
332	506244	KAMAL CHOUDHARY	HP BOSE
333	506245	KAMAL DEEP	HPSEBL
334	506262	KAMLESH KUMAR	HIMUDA



335	506276	KAPIL DEV	LAND RECORDS
336	506293	KAVISH KONDAL	HIGHER EDUCATION
337	506325	KRANTI KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
338	506361	KUSUM KUMAR	HIGHER EDUCATION
339	506394	MADHU BALA	HEALTH
340	506400	MAHINDER SINGH	HPSEBL
341	506408	MAMTA KUMARI	TECHNICAL EDUCATION
342	506429	MANISH KUMAR	I &PH
343	506441	MANJEET KUMAR	I &PH
344	506470	MANOJ KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
345	506483	MAYA DEVI	HIMUDA
346	506488	MEENA DEVI	HOME GUARD & CIVIL DEFENCE
347	506489	MEENA DEVI	HIGHER EDUCATION
348	506512	MINAKSHI THAKUR	INDUSTRIES
350	506520	MOHINDER PAL	HIGHER EDUCATION
351	506542	MONIKA DEVI	TECHNICAL EDUCATION
353	506567	MUKUL	DC OFFICE KANGRA
354	506568	MUNEESHA	INDUSTRIES
355	506586	MUNISH KUMAR	HPSEBL
356	506612	NARINDER KUMAR	HEALTH
358	506641	NEEL KAMAL	DC OFFICE KANGRA
360	506713	NITIN KUMAR	TRANSPORT
361	506714	NITIN THAKUR	HIGHER EDUCATION
362	506715	NITISH	DC OFFICE KANGRA
364	506745	PANKAJ KUMAR	SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
365	506752	PANKAJ KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
366	506772	PARDEEP KUMAR	HEALTH
368	506833	POOJA KUMARI	HOME GUARD & CIVIL DEFENCE
369	506868	PRAVEEN KUMAR	HP BOSE
370	506873	PRAVESH BHATIA	HPSEBL
371	506916	PUSHPINDER CHAUDHARY	I &PH
372	506931	RAHUL	INFORMATION & TECHNOLOGY
373	506937	RAHUL KAPOOR	DC OFFICE KANGRA
374	506948	RAJ KUMAR	DC OFFICE KANGRA
375	506949	RAJ KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
376	506953	RAJ KUMAR	HPSEBL
377	506959	RAJAN KAPOOR	HIGHER EDUCATION
378	506981	RAJEEV KUMAR	DC OFFICE KANGRA
380	506990	RAJESH CHAND	HPSEBL
381	506997	RAJESH KUMAR	HIGHER EDUCATION
382	507013	RAJEEV KUMAR	HPSEBL
383	507033	RAJ KUMBER KATOCH	TECHNICAL EDUCATION
384	507098	RAMAN KUMAR	HPSEBL
385	507105	RAMAN SINGH	HPSEBL
386	507110	RAMESHWAR MANGLAM	INDUSTRIES
389	507171	RAVINDER KUMAR	HPSEBL
390	507185	RAVINDER KUMAR	FOREST
391	507204	REENU	HIMUDA
392	507218	RENU BALA	DC OFFICE KANGRA

393	507228	REVEK KUMAR	FOREST
394	507239	RINKU KUMAR	HPSEBL
395	507249	RISHU CHOUDHARY	HPSEBL
396	507251	RITA CHOPRA	ANIMAL HUSBANDRY
397	507267	ROHIT DHIMAN	HEALTH
398	507281	ROHIT RAJAN	HP BOSE
399	507293	RUCHI SHARMA	DC OFFICE KANGRA
400	507341	SANDEEP KUMAR	DC OFFICE KANGRA
401	507348	SANDEEP KUMAR	FINANCE (T&A)
402	507349	SANDEEP KUMAR	HPSEBL
403	507363	SANDHYA DEVI	HP BOSE
404	507373	SANJAY KUMAR	I &PH
405	507398	SANJAY KUMAR	DC OFFICE KANGRA
406	507400	SANJEET KUMAR	DC OFFICE KANGRA
407	507403	SANJEEV KUMAR	FOOD & CIVIL SUPPLIES
408	507419	SANJEEV KUMAR	HP BOSE
409	507427	SANJEEV KUMAR	HEALTH
410	507449	SAPNA	HPSEBL
411	507481	SARVJEET	I &PH
412	507485	SATISH KUMAR	HPSEBL
413	507492	SATISH KUMAR	I &PH
414	507503	SAURABH SHARMA	DC OFFICE KANGRA
415	507519	SEEMA DEVI	HIGHER EDUCATION
416	507574	SHASHI PAUL	HPSEBL
417	507585	SHESHAV	LANGUAGE & CULTURE
418	507620	SHIVANI	LAND RECORDS
419	507621	SHIVANI	FINANCE (T&A)
420	507625	SHIVANI MISHRA	FOOD & CIVIL SUPPLIES
421	507646	SOM DUTT	LAND RECORDS
423	507656	SONIKA KUMARI	WOMEN & CHILD DEV.
424	507667	SUBHASH CHAND	ANIMAL HUSBANDRY
425	507670	SUDERSHANA KUMARI	HIGHER EDUCATION
426	507676	SUDHIR KUMAR	HPSEBL
427	507677	SUDHIR KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
428	507684	SUKH RAM	AGRICULTURE
429	507697	SUMAN KUMAR	PROSECUTION
430	507699	SUMAN KUMARI	HEALTH
431	507702	SUMEET KUMAR	HIGHER EDUCATION
432	507713	SUNIT KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
433	507722	SUNEEL KUMAR	HPSEBL
434	507737	SUNIL KUMAR	DC OFFICE KANGRA
435	507786	SURENDER KUMAR	FINANCE (T&A)
436	507787	SURENDER SINGH	HIGHER EDUCATION
437	507789	SURESH KUMAR	TECHNICAL EDUCATION
438	507795	SURJEET KUMAR	HPSEBL
439	507807	SUSHIL KUMAR	PLANNING
440	507810	SUSHIL KUMAR	HPSEBL
441	507818	SUSHMA KUMARI	I &PH
442	507872	VANDANA SHARMA	HIGHER EDUCATION
444	507900	VIJAY KUMAR	HP BUILDING & OTHERS



			CONSTRUCTIONS WORKER WELFARE BOARD
445	507901	VIJAY KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
446	507902	VIJAY KUMAR	DC OFFICE KANGRA
447	507908	VIJAY KUMAR	HPSEBL
451	507974	VINOD KUMAR	HP PWD
452	507977	VINOD KUMAR	DC OFFICE KANGRA
453	507996	VIPAN KUMAR	HPSEBL
454	508001	VIRENDER CHOUDHARY	ELEMENTARY EDUCATION
455	508013	VISHAL	TECHNICAL EDUCATION
456	508027	VISHAL PAL	HPSEBL
457	508029	VISHAL SAINI	ANIMAL HUSBANDRY
458	508043	VIVEK KUMAR	DC OFFICE KANGRA
459	508048	VIVEK SINGH	CO-OPERATION
460	508068	ABHINANDAN KUMAR	HIGHER EDUCATION
461	508125	AMIT KUMAR	I &PH
462	508195	KARAM SINGH	HP BOSE
463	508220	NAGENDER SINGH	DC OFFICE KINNAUR
464	508247	PURAN KUMARI	DC OFFICE KINNAUR
465	508269	RAVINDER SINGH	I &PH
466	508272	SANAM ZNAGMO	SC&ST DEV. CORPORATION
467	508328	SUMAN KUMAR	HPSEBL
469	508379	AMAN DOGRA	DC OFFICE HAMIRPUR
470	508382	AMAR SINGH	HPSEBL
471	508395	ANITA	ELEMENTARY EDUCATION
473	508406	ANITA KUMARI	AGRICULTURE
474	508433	ASHA DEVI	FOREST
476	508497	BIRBAL	HPSEBL
477	508501	BODH RAJ	ELEMENTARY EDUCATION
478	508504	CHAMAN LAL	ELEMENTARY EDUCATION
479	508511	CHANDRIKA KAPOOR	ELEMENTARY EDUCATION
480	508519	CHHERING DIKI	ELEMENTARY EDUCATION
481	508521	CHIRANJI LAL SHARMA	HIGHER EDUCATION
483	508568	DHARAM DASS	ELEMENTARY EDUCATION
484	508574	DHARMENDER VERMA	FOREST
485	508578	DHARMENDER SINGH	HIGHER EDUCATION
486	508624	GHANSHYAM SINGH	ELEMENTARY EDUCATION
487	508659	HEM PRAKASH	PANCHAYATI RAJ
488	508683	HOSHIYAR SINGH	DC OFFICE MANDI
490	508712	JHABE RAM	AGRICULTURE
492	508750	KEHAR SINGH	HPSEBL
494	508785	LAKSHMANI DEVI	I &PH
495	508813	LOT RAM	PROSECUTION
496	508844	MANOJ KUMAR	HIGHER EDUCATION
497	508849	MANISH SHARMA	LANGUAGE & CULTURE
498	508851	MANJU KUMARI	FOREST
500	508880	MINENDER SINGH	FOOD & CIVIL SUPPLIES
501	508883	MOHAN LAL	SC&ST DEV. CORPORATION
502	508904	NARENDER KUMAR	FOREST
503	508922	NEELAM	HPSEBL

504	508934	NEERJA SHARMA	DC OFFICE UNA
505	508939	NEHA KUMARI	HIGHER EDUCATION
506	508969	OM DUTT	HIGHER EDUCATION
507	509000	POONAM	HPSEBL
508	509015	PRANAV THAKUR	DC OFFICE KANGRA
509	509038	PURAN CHAND	FOREST
510	509045	PUSHP RAJ PURAN PRAKASH	HPSEBL
512	509054	RACHANA BRAMTAH	LABOUR COMMISSIONER
513	509056	RACHNA THAKUR	HPSEBL
514	509082	RAJESH KUMAR	I &PH
515	509091	RAJESH THAKUR	HIGHER EDUCATION
516	509095	RAJNEE KUMARI	I &PH
517	509116	RAMANA	ELEMENTARY EDUCATION
518	509118	RAMESH KUMAR	DC OFFICE MANDI
519	509141	REENA	PANCHAYATI RAJ
520	509172	RISHI RAJ	ELEMENTARY EDUCATION
521	509174	RITA THAKUR	AGRICULTURE
523	509190	RUBIYA KUMARI	TECHNICAL EDUCATION
524	509193	RUMLA DEVI	CO-OPERATION
525	509220	SANJOG SINGH	HPSEBL
526	509223	SANTOSH KUMAR	HPSEBL
527	509227	SARITA THAKUR	ELEMENTARY EDUCATION
530	509255	SHASHI VERMA	ELEMENTARY EDUCATION
531	509284	SOM DEV	SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
532	509295	SONIA THAKUR	HEALTH
533	509299	SUBHASH KUMAR	SC&ST DEV. CORPORATION
534	509316	SUNIL KUMAR	LABOUR COMMISSIONER
535	509326	SUNITA BODH	HIGHER EDUCATION
538	509347	SURESH KUMAR	HIGHER EDUCATION
539	509349	SURINDER KUMAR CHAUHAN	PROSECUTION
541	509368	TARUN KUMAR	HPSEBL
543	509385	THAKUR DASS	FINANCE (T&A)
544	509387	THULLU RAM	ANIMAL HUSBANDRY
545	509396	TRISHLA DEVI	HIGHER EDUCATION
546	509409	USHA THAKUR	HIGHER EDUCATION
547	509420	VARYAM SINGH	I &PH
548	509422	VED PRAKASH	HPSEBL
549	509441	VIJAY KUMAR	HIGHER EDUCATION
551	509481	YASHPAL THAKUR	HIGHER EDUCATION
552	509483	YOG RAJ	PROSECUTION
553	509495	TANZIN	DC OFFICE SIRMOUR
554	509528	KAPIL DEV	FOREST
555	509609	AJAY KUMAR	WOMEN & CHILD DEV.
556	509620	AJAY KUMAR	DC OFFICE MANDI
557	509623	AJAY SHARMA	ANIMAL HUSBANDRY
558	509625	AJEET KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
559	509638	AMAN DEEP	HP PWD

560	509644	AMAR CHAND	HOME GUARD & CIVIL DEFENCE
562	509650	AMARJEET SINGH	HPSEBL
563	509661	AMIT KUMAR	DC OFFICE MANDI
566	509735	ANITA KUMARI	WOMEN & CHILD DEV.
567	509746	ANJANA DEVI	HPSEBL
568	509784	ANOOP KUMAR	DC OFFICE UNA
569	509800	ANURADHA	HPSEBL
570	509802	ANURADHA	TECHNICAL EDUCATION
571	509804	ANURAG	FOREST
572	509841	ASHISH KUMAR	HPSEBL
573	509842	ASHISH KUMAR	DC OFFICE MANDI
574	509859	ASHWANI KUMAR	HPSEBL
575	509895	BANDANA DEVI	I &PH
576	509897	BANDANA THAKUR	PANCHAYATI RAJ
577	509905	BANITA KUMARI	HPSEBL
579	509930	BHARAT ARORA	MUNICIPAL CORPORATION DHARAMSALA
581	509945	BHARTI	WOMEN & CHILD DEV.
584	509978	BHOPENDER KUMAR	LAND RECORDS
585	509981	BHUP SINGH	CO-OPERATION
586	510015	BODH RAJ	FOREST
587	510016	BOBBY KUMAR	HEALTH
588	510021	BRIJ LAL	WOMEN & CHILD DEV.
589	510026	CHAMAN	TECHNICAL EDUCATION
590	510043	CHAMAN PRAKASH	AGRICULTURE
591	510046	CHAMPA DEVI	HPSEBL
594	510068	CHANDNI	FOREST
596	510084	CHET RAM	HPSEBL
597	510087	CHETAN	HIGHER EDUCATION
598	510092	CHETNA TANDON	DC OFFICE MANDI
599	510115	DALIP KUMAR	HPSEBL
600	510118	DILIP SINGH	HIGHER EDUCATION
601	510130	DAULAT RAM	WOMEN & CHILD DEV.
602	510139	DEEP KUMAR CHAUHAN	HPSEBL
603	510143	DEEP RAJ	TRANSPORT
604	510157	DEEPAK KUMAR	DC OFFICE L&S
606	510222	DHARMENDER SINGH	HORTICULTURE
607	510224	DHEERAJ KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
608	510242	DIMPLE KUMARI	HPSEBL
609	510248	DINA NATH	HPSEBL
610	510249	DINA NATH	DC OFFICE MANDI
612	510298	DURGI DEVI	DC OFFICE MANDI
613	510308	GAGAN SHARMA	DC OFFICE MANDI
614	510321	GAURAV KUMAR	HIGHER EDUCATION
619	510389	GURDEV	HPSEBL
620	510394	HAMIR SINGH	HPSEBL
621	510395	HANS RAJ	HPSEBL
622	510398	HANS RAJ	HPSEBL
624	510420	HARISH KUMAR	HEALTH
625	510421	HARISH KUMAR	I &PH

626	510426	HARISH KUMAR	HPSIDC
627	510434	HARSH LATA	HIGHER EDUCATION
630	510463	HEM RAJ	HIGHER EDUCATION
631	510474	HEMANT	HEALTH
632	510481	HEMLATA	SC&ST DEV. CORPORATION
633	510486	HET RAM	HIGHER EDUCATION
636	510555	JAI PAL	HOME GUARD & CIVIL DEFENCE
637	510556	JAI PAL	DC OFFICE MANDI
638	510583	JHAVE RAM	WOMEN & CHILD DEV.
639	510585	JITEDNER SINGH	TOWN & COUNTRY PLANNING
640	510629	KAKU	ELEMENTARY EDUCATION
642	510650	KAMAL KISHORE	HPSEBL
643	510654	KAMAL PARKASH	I &PH
644	510656	KAMAL SHARMA	TECHNICAL EDUCATION
645	510668	KAMLESH KAUSHAL	TECHNICAL EDUCATION
646	510689	KANTA DEVI	TECHNICAL EDUCATION
649	510725	KHAZANA RAM	HOME GUARD & CIVIL DEFENCE
651	510735	KHEM RAJ	CO-OPERATION
654	510763	KIRAN KUMARI	SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
656	510780	KRISHAN DEV	I &PH
657	510790	KRISHAN KUMAR	LANGUAGE & CULTURE
658	510800	KUKU RAM	CO-OPERATION
661	510819	KUMARI ANJANI	HP BOSE
662	510839	KUSHAM LATA	HEALTH
664	510870	LALIT KUMAR	I &PH
665	510872	LALIT KUMAR	DC OFFICE MANDI
666	510890	LATA DEVI	FOREST
667	510898	LAVISHA SHARMA	TECHNICAL EDUCATION
668	510905	LEELA DHAR	ELEMENTARY EDUCATION
669	510906	LEELA DHAR	ELEMENTARY EDUCATION
674	510946	MAHENDER KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
675	510955	MAHESH KUMAR	HEALTH
676	510983	MAN SINGH	HPSEBL
678	511006	MANJEET SEN	DC OFFICE MANDI
679	511013	MANJU DEVI	HPSEBL
682	511030	MANOJ KUMAR	HPSEBL
683	511035	MANOJ KUMAR	PANCHAYATI RAJ
684	511121	MOHAR LAL	TECHNICAL EDUCATION
686	511170	MUNISH KUMAR	DC OFFICE MANDI
688	511178	NAG DEV	FINANCE (T&A)
690	511200	NARENDER KUMAR	AGRICULTURE
691	511215	NARESH KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
692	511227	NARESH KUMAR	WOMEN & CHILD DEV.
693	511233	NARESH KUMAR	TECHNICAL EDUCATION
694	511242	NASEEB KUMAR	HPSEBL
695	511263	NEEL KAMAL	ELEMENTARY EDUCATION
696	511300	NEERAJ KUMAR	AGRICULTURE
697	511301	NEERAJ KUMAR	HPSEBL
700	511361	NISHA KUMARI	TECHNICAL EDUCATION

701	511366	NISHANT THAKUR	HIGHER EDUCATION
702	511390	OM PARKASH	SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
704	511392	OM PARKASH	HPSEBL
706	511398	OM PRAKASH	DC OFFICE L&S
707	511406	OM PRAKASH	DC OFFICE MANDI
709	511427	PANJKU RAM	FINANCE (T&A)
710	511436	PANKAJ KUMAR	HIGHER EDUCATION
711	511484	PAWAN KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
712	511493	PAWAN KUMAR	FINANCE (T&A)
713	511522	POOJA DEVI	ELEMENTARY EDUCATION
714	511527	POOJA DEVI	I &PH
715	511538	POONAM	INDUSTRIES
716	511549	PRADEEP KUMAR	HEALTH
718	511564	PRAKASH CHAND	INDUSTRIES
720	511584	PRATIMA VERMA	ELECTION
721	511621	PREM SINGH	HORTICULTURE
722	511643	PRIYANKA KUMARI	HEALTH
723	511655	PROVINA	HEALTH
726	511686	RADHA DEVI	HEALTH
727	511702	RAJ KUMAR	HIGHER EDUCATION
729	511734	RAJENDER PAL	WOMEN & CHILD DEV.
731	511741	RAJESH KUMAR	TECHNICAL EDUCATION
732	511745	RAJESH KUMAR	HPSEBL
733	511759	RAJESH KUMAR	DC OFFICE MANDI
734	511767	RAJNI	DC OFFICE MANDI
735	511777	RAKESH KUMAR	FOREST
736	511785	RAKESH KUMAR	DC OFFICE MANDI
737	511793	RAKESH KUMAR	LABOUR COMMISSIONER
738	511872	RANBIR SINGH	FOOD & CIVIL SUPPLIES
740	511880	RANVEER SINGH	TECHNICAL EDUCATION
742	511905	RAVI THAKUR	HP PWD
743	511936	REENA KUMARI	HEALTH
744	511986	RITU KUMARI	HPSEBL
745	512012	ROSHAN LAL	I &PH
746	512059	SANGEETA	HIGHER EDUCATION
748	512068	SANJAY KUMAR	HP BOSE
749	512070	SANJAY KUMAR	DC OFFICE MANDI
751	512078	SANJAY KUMAR	HPSEBL
752	512084	SANJAY KUMAR	LAND RECORDS
753	512108	SANJEEV KUMAR	HIGHER EDUCATION
754	512130	SANTOSH KUMAR	HIGHER EDUCATION
756	512148	SAPNA DEVI	HPSEBL
757	512150	SAPNA DEVI	DC OFFICE MANDI
759	512288	SITA DEVI	HIGHER EDUCATION
760	512332	SUDESH KUMAR	HPSEBL
761	512334	SUKH DEV	SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
762	512342	SUMAN KUAMRI	TECHNICAL EDUCATION
763	512349	SUMEET KUMAR	TECHNICAL EDUCATION



767	512386	SUNIL KUMAR	TECHNICAL EDUCATION
768	512387	SUNIL KUMAR	HIGHER EDUCATION
769	512389	SUNIL KUMAR	FINANCE (T&A)
770	512390	SUNIL KUMAR	AGRICULTURE
771	512428	SUNNY RAWAT	HEALTH
772	512434	SURAT RAM	HP PWD
773	512441	SURINDER KUMAR	HEALTH
774	512445	SURESH CHAND	DC OFFICE L&S
776	512468	SURJEET SINGH	HPSEBL
777	512479	SUSHEEL KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
779	512527	TEK CHAND	DC OFFICE MANDI
781	512535	TEK SINGH	INDUSTRIES
783	512551	TILAK RAJ	HPSEBL
784	512552	TILAK RAJ	HPSEBL
785	512557	TULSI DEVI	HP BOSE
789	512611	VED PRAKASH	TRANSPORT
790	512614	VEENA KUMARI	WOMEN & CHILD DEV.
791	512637	VIJAY KUMAR	DC OFFICE MANDI
792	512639	VIJAY KUMAR	HEALTH
793	512650	VIJAY PRAKASH	HPSEBL
795	512656	VIJENDER KUMAR	I &PH
796	512659	VIKAS KUMAR	ANIMAL HUSBANDRY
797	512667	VIKRAM KUMAR	HOME GUARD & CIVIL DEFENCE
798	512685	VINOD KUMAR	FOREST
799	512689	VINOD KUMAR	HPSEBL
801	512718	VIRENDER THAKUR	FOOD & CIVIL SUPPLIES
803	512735	VIVEK THAKUR	FINANCE (T&A)
804	512750	YAMINI SHARMA	WOMEN & CHILD DEV.
805	512852	ABHISHEK KAPOOR	HPSEBL
806	512863	ADITYA KUMAR ALIAS BITTU	HP BUILDING & OTHERS CONSTRUCTIONS WORKER WELFARE BOARD
808	512878	AJAY KUMAR	FOOD & CIVIL SUPPLIES
809	512909	AKSHIKA SHARMA	RURAL DEVELOPMENT
810	512911	ALKA DEVI	DC OFFICE SHIMLA
811	512917	AMAN DEEP NEGI	DC OFFICE KINNAUR
813	512957	AMIT KUMAR	HORTICULTURE
814	512964	AMIT VERMA	ECONOMIC ADVISOR
815	512971	ANKUR SONI	HPSEBL
817	512979	ANAR KALI	HP BUILDING & OTHERS CONSTRUCTIONS WORKER WELFARE BOARD
818	512988	ANIL	PANCHAYATI RAJ
819	513008	ANIL KUMAR	HEALTH
820	513015	ANIL KUMAR	I &PH
821	513016	ANIL KUMAR	CO-OPERATION
822	513026	ANITA	I &PH
823	513042	ANITA KUMARI	SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
825	513078	ANJANI	ELEMENTARY EDUCATION



826	513091	ANJU	HPSEBL
827	513094	ANJU BODH	RURAL DEVELOPMENT
828	513130	ANNU	PANCHAYATI RAJ
829	513131	ANOOB CHAUHAN	LABOUR COMMISSIONER
830	513137	ANU	HP BACKWARD CLASSES & FINANCE DEV.
831	513145	ANU VERMA	URBAN DEVELOPMENT
832	513151	ANUJ VASHISHT	FOREST
833	513187	ARCHNA SHARMA	URBAN DEVELOPMENT
834	513224	ARVIND SHARMA	HPSEBL
836	513241	ASHIMA SHARMA	HPSEBL
837	513244	ASHISH	DC OFFICE MANDI
839	513258	ASHOK KUMAR	DC OFFICE SHIMLA
840	513259	ASHOK KUMAR	HORTICULTURE
841	513279	ASHWANI KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
842	513281	ASHWANI PAL	FOOD & CIVIL SUPPLIES
843	513306	BABITA	WOMEN & CHILD DEV.
844	513330	BALBIR SINGH	TOWN & COUNTRY PLANNING
845	513332	BALDEV	HPSEBL
846	513355	BHAG CHAND	FOREST
847	513360	BHAGAT RAM	HIGHER EDUCATION
848	513375	BHAVANA	HPSEBL
849	513376	BHAVANA DEVI	WOMEN & CHILD DEV.
851	513427	BHUPENDER SHARMA	WOMEN & CHILD DEV.
852	513432	BHUPENDER KUMAR	ANIMAL HUSBANDRY
853	513443	BHUVNESHVAR	HPSEBL
854	513444	BHUVNESHWARI	HPSEBL
855	513464	BRIJ LAL	DC OFFICE MANDI
857	513470	BUDHI SINGH	WOMEN & CHILD DEV.
858	513472	CHAAND KUMARI	HIGHER EDUCATION
860	513498	CHANDER KANTA	HPSEBL
861	513522	CHARAN JEET SINGH	HEALTH
862	513545	DALEEP KUMAR	HPSEBL
863	513547	DALEEP KUMAR BANSAL	FOREST
864	513552	DALIP KUMAR	HPSEBL
865	513576	DEEPAK	HIMUDA
866	513603	DEEPIKA BHARDWAJ	FINANCE (T&A)
867	513604	DEEPIKA DEVI	PLANNING
868	513629	DESH RAJ	ELEMENTARY EDUCATION
869	513642	DEVENDER MEHTA	LANGUAGE & CULTURE
870	513648	DEVENDER SINGH	LANGUAGE & CULTURE
871	513649	DEVENDER SINGH	DC OFFICE SIRMOUR
872	513708	DIMPLE	URBAN DEVELOPMENT
873	513710	DIMPLE	YOUTH SERVICES & SPORTS
874	513720	DINESH	STATE ELECTION COMMISSION
876	513747	DINESH SHARMA	FOREST
877	513758	HEMANT KUMAR	HPSEBL
878	513759	POONAM SHARMA	ANIMAL HUSBANDRY
879	513801	DINESH SINGH	HOME GUARD & CIVIL DEFENCE
880	513803	DINESH THAKUR	PRISON & CORRECTIONAL

			SERVICES
881	513829	GAJENDER SINGH	HPSEBL
883	513929	HARINDER KUMAR	TRANSPORT
884	513953	HARISH THAKUR	ELEMENTARY EDUCATION
886	513982	HEM LATA	FOREST
887	513987	HEM PARKASH	PRISON & CORRECTIONAL SERVICES
888	513999	HEMANT KUMAR	HIMUDA
889	514017	HEMRAJ	HEALTH
890	514019	HEMRAJ	SC&ST DEV. CORPORATION
891	514028	HIRA BHUSHAN	FOREST
892	514045	HOSHIAR SINGH	ANIMAL HUSBANDRY
893	514046	HOSHIYAR SINGH	HIGHER EDUCATION
894	514054	INDER SINGH	DC OFFICE SHIMLA
895	514083	JAGDISH CHAND	HEALTH
896	514084	JAGDISH KUMAR	HIGHER EDUCATION
897	514097	JAI NAND SINGH	DC OFFICE KINNAUR
898	514110	JANESHWER THAKUR	HIGHER EDUCATION
899	514134	JITENDER KUMAR	HP BUILDING & OTHERS CONSTRUCTIONS WORKER WELFARE BOARD
900	514143	JITENDER THAKUR	HPSEBL
902	514181	KAKU RAM	HPSEBL
904	514207	KAMAL KISHORE	FOREST
905	514226	KAMLESH KUMARI	HPSEBL
906	514238	KANHAIYA LAL	PANCHAYATI RAJ
907	514254	KAPIL THAKUR	HPSEBL
909	514263	KARTIK	FOREST
910	514287	KAVITA RANI	ELEMENTARY EDUCATION
911	514288	KAVITA THAKUR	HIGHER EDUCATION
914	514306	KHEM SINGH	HPSEBL
915	514311	KHOR SINGH	STATE ELECTION COMMISSION
916	514334	KIRAN KANWAR	ELEMENTARY EDUCATION
920	514376	KRISHNA DEVI	PLANNING
921	514385	KULDEEP	FINANCE (T&A)
922	514398	KULDEEP KUMAR	I &PH
923	514414	KUMAR SINGH	I &PH
925	514448	KUMARI SUMAN PAL	HPSEBL
927	514471	LAL CHAND	FOREST
928	514482	LALIT KUMAR	HP BACKWARD CLASSES & FINANCE DEV.
929	514496	LALITA KUMARI	HPSEBL
930	514502	LAJVANTI	HIGHER EDUCATION
931	514522	LAYAK RAM	HIMUDA
932	514530	LEELA DASS	HPSEBL
933	514532	LEENA DEVI	HPSEBL
934	514541	LOKENDER KUMAR	HPSEBL
935	514542	LOKENDER SHARMA	INFORMATION & TECHNOLOGY
936	514551	MAAN SINGH	WOMEN & CHILD DEV.
938	514555	MADAN LAL	STATE ELECTION COMMISSION

939	514556	MADAN LAL	LABOUR COMMISSIONER
940	514557	MADAN LAL	HPSEBL
941	514566	MADHU BALA	PLANNING
943	514592	MAHESH KUMAR	HEALTH
944	514593	MAHESH KUMAR	HIGHER EDUCATION
945	514607	MAMTA	ECONOMIC ADVISOR
946	514609	MAMTA	HEALTH
947	514620	MAMTA THAKUR	HP PERC
948	514625	MANBHAWAN CHAUHAN	HIGHER EDUCATION
949	514639	MANISH SHARMA	STATE ELECTION COMMISSION
951	514659	MANJOO KUMARI	HPSEBL
952	514668	MANJU KUMARI	DC OFFICE SHIMLA
953	514687	MANOHAR LAL	HPSEBL
954	514688	MANOHAR LAL	FOREST
956	514704	MANOJ KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
957	514706	MANOJ KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
958	514708	MANOJ KUMAR	PRISON & CORRECTIONAL SERVICES
959	514710	MANOJ KUMAR	HPSEBL
960	514713	MANOJ KUMAR SHARMA	HPSEBL
961	514736	MEENA DEVI	ELEMENTARY EDUCATION
962	514737	MEENA KUMARI	HP BACKWARD CLASSES & FINANCE DEV.
963	514742	MEENAKSHI	FOREST
964	514743	MEENAKSHI	HPSEBL
965	514753	MEENAKSHI	FOREST
966	514759	MEENAKSHI THAKUR	SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
967	514780	MEGHA SHARMA	HP PWD
968	514790	MINENDER SHARMA	HPSEBL
969	514806	MOHINDER RAJ	HPSEBL
970	514824	MONIKA DEVI	LABOUR COMMISSIONER
971	514827	MONIKA JAGYAN	ELEMENTARY EDUCATION
973	514850	MUKESH KUMAR	TECHNICAL EDUCATION
974	514873	MUNISH KUMAR	PRISON & CORRECTIONAL
975	514879	NAGESH THAKUR	STATE EDUCATION
976	514888	NARENDER	HIGHER EDUCATION
978	514900	NARENDER KUMAR	WOMEN & CHILD DEV.
979	514921	NARPAT RAM	ELECTION
980	514928	NAVEEN KUMAR	TRANSPORT
981	514930	NAVEEN KUMAR	DC OFFICE SHIMLA
982	514946	NEELAM	HIGHER EDUCATION
983	514959	NEELAM KUMARI	ELEMENTARY EDUCATION
984	514978	MEENA KUMARI	HIGHER EDUCATION
985	515000	NEETU KUMARI	HPSEBL
986	515008	NEHA GARG	CO-OPERATION
987	515050	NIRMLA	DC OFFICE SHIMLA
989	515093	NITIN SHARMA	SC&ST DEV. CORPORATION
990	515114	OM PRAKASH	DC OFFICE KANGRA
991	515118	OM PRAKASH	CO-OPERATION

992	515139	PANKAJ CHANDEL	ANIMAL HUSBANDRY
993	515140	PANKAJ CHAUHAN	PLANNING
994	515150	PANKAJ KUMAR SHARMA	PLANNING
995	515173	PARDEEP KUMAR KAUSHAL	ELEMENTARY EDUCATION
996	515185	PARVEEN	RURAL DEVELOPMENT
997	515206	PAWAN KUMAR	FINANCE (T&A)
998	515216	PAWAN KUMAR	LABOUR COMMISSIONER
999	515218	PAWAN KUMAR	LABOUR COMMISSIONER
1000	515220	PAWAN KUMAR	HPSEBL
1001	515244	POOJA SHARMA	DC OFFICE SHIMLA
1002	515248	POONAM SHARMA	HIGHER EDUCATION
1003	515297	POONAM KUMARI	HEALTH
1004	515317	PRADEEP KUMAR	HEALTH
1005	515318	PRADEEP KUMAR	FOREST
1008	515335	PRAMILA KUMARI	LABOUR COMMISSIONER
1009	515340	PRATIBHA	HPSEBL
1010	515358	PREETAM SINGH	DC OFFICE SHIMLA
1011	515360	PREETI	LABOUR COMMISSIONER
1013	515391	PREM SINGH	HP PWD
1015	515406	PRIYNKA	HPSEBL
1016	515424	PRIYANKA SHARMA	WOMEN & CHILD DEV.
1017	515442	PROMILA THAKUR	HPSEBL
1018	515452	PUNEET	FOREST
1019	515459	PURAN CHAND	HIGHER EDUCATION
1021	515482	RACHNA THAKUR	HPSEBL
1022	515495	RAGHAV SOOD	HPSEBL
1023	515505	RAHUL RITHWAN	HIGHER EDUCATION
1024	515514	RAJ KUMAR	HEALTH
1025	515521	RANJANA VERMA	HP BUILDING & OTHERS CONSTRUCTIONS WORKER WELFARE BOARD
1026	515530	RAJEEV	HIMUDA
1027	515533	RAJEEV DHIMAN	PRISON & CORRECTIONAL SERVICES
1028	515543	RAJENDER KUMAR	HEALTH
1029	515551	RAJESH	FOREST
1030	515577	RAJINDER KUMAR	HPSEBL
1031	515578	RAJINDER KUMAR	FOREST
1032	515620	RAKESH KUMAR	SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
1033	515624	RAKESH KUMAR	DC OFFICE SHIMLA
1034	515638	RAKSHA DEVI	STATE ELECTION COMMISSION
1035	515641	RAM GOPAL	TECHNICAL EDUCATION
1036	515669	RAMAN VERMA	DC OFFICE SHIMLA
1037	515670	RAMANAND	HEALTH
1038	515678	RAMESHWAR KUMAR	FOOD & CIVIL SUPPLIES
1039	515691	RANJANA DEVI	INDUSTRIES
1040	515698	RANJEET MASTANA	STATE ELECTION COMMISSION
1041	515701	RANJEET SINGH	HPSEBL

1043	515716	RAVI KANT	DC OFFICE SHIMLA
1044	515725	RAVIJA	HIGHER EDUCATION
1045	515736	RAVINDER SINGH	HIGHER EDUCATION
1046	515768	REENA SHARMA	DC OFFICE SHIMLA
1047	515778	REENU SHARMA	HEALTH
1048	515785	REETA DEVI	HPSEBL
1050	515805	REKHA KASHYAP	WOMEN & CHILD DEV.
1051	515831	RICHA SIRKECK	LANGUAGE & CULTURE
1052	515850	RITESH KUMAR	HPSEBL
1053	515852	RITIKA CHAUHAN	HPSEBL
1056	515938	SANDEEP KUMAR	PRINTING & STATIONERY
1058	515962	SANGEETA	HPSEBL
1059	515966	SANGEETA	ANIMAL HUSBANDRY
1061	516000	SANJAY KUMAR	HOME GUARD & CIVIL DEFENCE
1062	516004	SANJEEV	HP BUILDING & OTHERS CONSTRUCTIONS WORKER WELFARE BOARD
1064	516032	SANTOSHA DEVI	HPSIDC
1065	516052	SAPNA DEVI	DC OFFICE KANGRA
1066	516058	SAPNA THAKUR	LAND RECORDS
1067	516061	SARASWATI	WOMEN & CHILD DEV.
1068	516069	SARITA DEVI	FOREST
1069	516075	SAROJ	WOMEN & CHILD DEV.
1070	516083	SATISH KUMAR	HPSEBL
1071	516093	SATISH BUNDEL	HIGHER EDUCATION
1072	516114	SEEMA DEVI	HPSEBL
1073	516135	SHALINI	DC OFFICE SHIMLA
1074	516141	SHALINI SHARMA	HIGHER EDUCATION
1075	516181	SHASHI SHARMA	HIGHER EDUCATION
1076	516187	SHEELA DEVI	HEALTH
1077	516189	SHEELA DEVI	DC OFFICE KINNAUR
1079	516244	SHUSHANK SHARMA	DC OFFICE SHIMLA
1080	516255	SITA DEVI	TECHNICAL EDUCATION
1082	516291	SONIA SHARMA	STATE ELECTION COMMISSION
1083	516307	SUBHASH SHARMA	WOMEN & CHILD DEV.
1084	516311	SUDESH KUMARI	HIMUDA
1085	516325	SUJATA THAKUR	DC OFFICE SHIMLA
1086	516328	SUKH RAM	HIGHER EDUCATION
1087	516350	SUMIT KUMAR	ECONOMIC ADVISOR
1089	516367	SUNIL DUTT	ELECTION
1090	516375	SUNIL KUMAR	CO-OPERATION
1091	516378	SUNIL KUMAR	DC OFFICE SHIMLA
1092	516380	SUNIL KUMAR	RURAL DEVELOPMENT
1093	516390	SUNIL KUMAR	LANGUAGE & CULTURE
1094	516401	SUNITA	INDUSTRIES
1095	516402	SUNITA	HPSEBL
1096	516420	SUNITA KUMARI	DC OFFICE SHIMLA
1097	516431	SUPRIYA	DC OFFICE KINNAUR
1098	516433	SUPRIYA VERMA	WOMEN & CHILD DEV.
1099	516446	SURENDER KUMAR	LABOUR COMMISSIONER



1100	516454	SURENDER SINGH	FOREST
1101	516463	SURESH KUMAR	CO-OPERATION
1102	516465	SURESH KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
1103	516471	SURESH KUMAR	INFORMATION & TECHNOLOGY
1104	516478	SURJEET KUMAR	HIGHER EDUCATION
1108	516521	TAMANNA KUMARI	HPSEBL
1109	516527	TARA CHAND	HEALTH
1110	516542	TEJINDER KUMAR	LABOUR COMMISSIONER
1111	516552	TENZIN NORBU	LABOUR COMMISSIONER
1112	516573	UMESH KUMAR	I &PH
1113	516630	VEENA DEVI	HPSEBL
1114	516640	VIDYA SAGAR	LABOUR COMMISSIONER
1115	516643	VIJAY	LABOUR COMMISSIONER
1116	516650	VIJAY KUMAR	DC OFFICE SHIMLA
1117	516651	VIJAY KUMAR	HIGHER EDUCATION
1118	516655	VIJAY PAL	HPSEBL
1120	516679	VIKAS MEHTA	DC OFFICE SHIMLA
1123	516730	VIPIN SIRKECK	HPSEBL
1126	516746	VISHAL BHARDWAJ	HPSEBL
1128	516779	YOG RAJ	HIMUDA
1129	516788	YOGESH KUMAR	STATE ELECTION COMMISSION
1130	516792	YOGESH SHARMA	HPSEBL
1131	516804	CHUNI LAL	LABOUR COMMISSIONER
1132	516809	SAPNA DEVI	ELEMENTARY EDUCATION
1133	516825	ADITI GUPTA	HPSIDC
1134	516832	AJAY CHAUHAN	ANIMAL HUSBANDRY
1135	516841	AJAY KUMAR	DC OFFICE SIRMOUR
1138	516893	ANIL	RURAL DEVELOPMENT
1139	516899	ANIL KUMAR	HIGHER EDUCATION
1142	516918	ANIL SHARMA	HPSEBL
1143	516931	ANITA DEVI	HP PWD
1144	516945	ANJANA SHARMA	HPSEBL
1145	516966	ANKUR CHAUHAN	DC OFFICE SIRMOUR
1148	516989	ARJUN BHARDWAJ	HPSEBL
1152	517012	ARUN SHARMA	HOME GUARD & CIVIL DEFENCE
1155	517040	AVINISH	HPSEBL
1156	517050	BABLI DEVI	TECHNICAL EDUCATION
1157	517054	BABLU	HP PWD
1158	517063	BALBIR SINGH	HIGHER EDUCATION
1161	517075	BALWANT SINGH	HIGHER EDUCATION
1162	517079	BARU RAM	DC OFFICE SIRMOUR
1163	517080	BARU RAM	HOME GUARD & CIVIL DEFENCE
1164	517091	BHAGWAN SINGH	HPSEBL
1166	517104	CHAMAN LAL	DC OFFICE SHIMLA
1167	517121	DALIP	INDUSTRIES
1169	517136	DEEPAK KUMAR	ELEMENTARY EDUCATION
1171	517158	DEVENDER SINGH	RURAL DEVELOPMENT
1173	517169	DHIRAJ TOMAR	ANIMAL HUSBANDRY
1174	517177	DINESH KUMAR	HIGHER EDUCATION
1175	517182	DINESH KUMAR	HPSEBL



1176	517185	DINESH KUMAR	FOREST
1177	517192	DINESH KUMARI	CO-OPERATION
1179	517219	GEETA RAM	DC OFFICE SIRMOUR
1180	517223	GOPAL SINGH	DC OFFICE SHIMLA
1181	517235	GURUDUTT SINGH	CO-OPERATION
1182	517261	HEMANT KUMAR	RURAL DEVELOPMENT
1184	517296	ISLAM	WOMEN & CHILD DEV.
1186	517310	JAI PAL	HIGHER EDUCATION
1188	517315	JAI PRAKASH	HIGHER EDUCATION
1193	517352	KAMAL KUMAR	CO-OPERATION
1194	517355	KAMAL RASHMI KHAN	HPSEBL
1195	517357	KAMAL SINGH	HIGHER EDUCATION
1196	517359	KAMALJEET SINGH	PROSECUTION
1197	517362	KAMLESH	HOME GUARD & CIVIL DEFENCE
1198	517385	KAPIL DEV	ELEMENTARY EDUCATION
1200	517398	KARUN SHARMA	HPSEBL
1202	517411	KESHWANAND	RURAL DEVELOPMENT
1205	517430	KIRAN DEVI	HPSEBL
1207	517500	LEELA DEVI	FOREST
1211	517544	MANISH KUMAR	HPSEBL
1212	517548	MANISH KUMAR	FOREST
1213	517568	MANJANA SINGH	HPSEBL
1214	517571	MANJEET KUMARI	ELEMENTARY EDUCATION
1216	517616	MOHAN SINGH	HIGHER EDUCATION
1219	517637	MUKESH KUMAR	INDUSTRIES
1221	517640	MUKESH KUMAR	DC OFFICE SIRMOUR
1226	517657	NARENDER KUMAR	INDUSTRIES
1227	517659	NARENDER KUMAR	CO-OPERATION
1228	517663	NARENDER SINGH	CO-OPERATION
1231	517676	NARESH SHARMA	FOREST
1233	517687	NEELAM CHAUHAN	SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
1234	517714	NEETU SAINI	SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
1235	517722	NEHA PUNDIR	FINANCE (T&A)
1238	517754	NITESH BHATIA	TECHNICAL EDUCATION
1239	517766	PAKIZA	HIMUDA
1240	517770	PANKAJ KUMAR	WOMEN & CHILD DEV.
1245	517785	PARVEEN KUMAR	FINANCE (T&A)
1249	517817	POONAM SHARMA	DC OFFICE SIRMOUR
1250	517828	PRADEEP KUMAR	HORTICULTURE
1251	517851	PRAVEEN KUMAR	HIGHER EDUCATION
1252	517854	PRAVESH KUMAR	HIMUDA
1254	517889	PUNAM DEVI	HEALTH
1255	517893	PURAN SINGH	HPSEBL
1256	517903	RACHNA RAWAT	LANGUAGE & CULTURE
1262	517976	RAKESH KUMAR	AGRICULTURE
1263	517987	RAMAN PUNDER	AGRICULTURE
1264	517993	RAMESH KUMAR	HEALTH
1265	517996	RAMESH SHARMA	HPSEBL

1266	518019	RAVINDER KUMAR	HPSEBL
1268	518059	REKHA DEVI	FOREST
1269	518070	RENU SHARMA	HIGHER EDUCATION
1270	518071	RENU THAKUR	HPSEBL
1272	518102	SOHAN SINGH	INDUSTRIES
1275	518153	SANGEETA KUMARI	HIGHER EDUCATION
1276	518154	SANIYA RAM	DC OFFICE L&S
1278	518185	SATISH KUMAR	FOREST
1279	518196	SAVITRI DEVI	LANGUAGE & CULTURE
1280	518208	SEEMA DEVI	RURAL DEVELOPMENT
1281	518218	SHAMBHU RAM	HIGHER EDUCATION
1282	518223	SHARVAN KUMAR	DC OFFICE SIRMOUR
1283	518224	SHASHANK MOHAN	HEALTH
1284	518232	SHIKHA VIKRAM	FOREST
1285	518233	SHILPA	CO-OPERATION
1286	518246	SHIVRAJ SINGH	PRISON & CORRECTIONAL SERVICES
1290	518302	SUMAN KUMARI	I &PH
1292	518319	SUNIL KUMAR	HEALTH
1294	518345	SURESH PAL	INDUSTRIES
1296	518348	SURJEET SINGH	LABOUR COMMISSIONER
1297	518349	SURJEET SINGH	FINANCE (T&A)
1301	518385	TARUN SHARMA	DC OFFICE SIRMOUR
1302	518407	VANITA TOMAR	CO-OPERATION
1304	518439	VIKESH KUMAR	HIGHER EDUCATION
1305	518443	VIKRAM SINGH	SC&ST DEV. CORPORATION
1306	518445	VIKRAM SINGH	LABOUR COMMISSIONER
1308	518454	VIKRAM SINGH	HPSIDC
1310	518465	VINOD KUMAR	DC OFFICE KANGRA
1311	518468	VINOD KUMAR	HPSEBL
1313	518481	VINOD MALVIYA	HEALTH
1319	518583	AARTI THAKUR	HPSEBL
1320	518605	AMAR DEEP	HPSEBL
1321	518610	AMIT KUMAR	HIGHER EDUCATION
1323	518619	ANIL CHAND	I &PH
1324	518627	ANIL KUMAR	FINANCE (T&A)
1325	518630	ANIL KUMAR	HP PWD
1326	518677	ARUNA BHARDWAJ	HEALTH
1327	518691	AYUSH GUPTA	YOUTH SERVICES & SPORTS
1328	518700	BALVINDER CHOUDHARY	INDUSTRIES
1329	518728	BHUPENDER SINGH	FOOD & CIVIL SUPPLIES
1330	518743	CHANDER PAL	RURAL DEVELOPMENT
1331	518789	DHEERAJ KUMAR	HPSEBL
1333	518823	HARISH KUMAR	HEALTH
1334	518852	JAGMOHAN SINGH	HIGHER EDUCATION
1335	518868	JITENDER KUMAR	SC&ST DEV. CORPORATION
1336	518911	KAPIL DEV	HPSEBL
1337	518924	KAVITA SHARMA	LAND RECORDS
1341	519005	MADHU BALA	HPSEBL
1344	519052	MEERA DEVI	SC&ST DEV. CORPORATION

1346	519071	MONIKA SHARMA	HIGHER EDUCATION
1347	519079	MUNISH KUMAR	DC OFFICE KANGRA
1349	519109	NEELAM	INDUSTRIES
1350	519117	NEERAJ	FOREST
1351	519134	NETAR SINGH	CO-OPERATION
1352	519159	NIVEDITA	RURAL DEVELOPMENT
1354	519213	PRADEEP KUMAR	FOOD & CIVIL SUPPLIES
1355	519239	PRERNA GUPTA	I & PH
1357	519275	RAHUL VERMA	HIGHER EDUCATION
1359	519283	RAJENDER	I & PH
1362	519353	RESHMA DEVI	HOME GUARD & CIVIL
1363	519380	SANDEEP KUMAR	HPSEBL
1364	519392	SANGITA SHARMA	DC OFFICE SIRMOUR
1366	519397	SANJAY KUMAR	STATE ELECTION
1367	519418	SATISH KUMAR	TRANSPORT
1368	519420	SATISH PAL	HEALTH
1369	519424	SAVITA	HPSEBL
1370	519457	SHIV KUMAR	HPSEBL
1376	519556	SUSHEEL KASHTYAP	HPSEBL
1377	519566	TAPENDER SINGH	I & PH
1378	519572	TARUN BALA	HIGHER EDUCATION
1379	519607	VED PRAKASH	FOOD & CIVIL SUPPLIES
1380	519627	VIKAS SHARMA	HPSEBL
1381	519641	VINAY SINGH	HIGHER EDUCATION
1384	519665	YACHANA SHARMA	HIGHER EDUCATION
1385	519671	YASHPAL	WOMEN & CHILD DEV.
1387	519765	ANKUSH SHARMA	DC OFFICE UNA
1388	519808	BIYAS DEV	HIGHER EDUCATION
1389	519811	CHANDER JEET	ELEMENTARY EDUCATION
1390	519814	DALJIT SINGH	I & PH
1391	519818	DAULAT RAM	WOMEN & CHILD DEV.
1392	519823	DEEPAK KUMAR	ECONOMIC ADVISOR
1393	519835	DHRUV ALIAS DATA RAM	FOREST
1394	519890	JYOTI	DC OFFICE UNA
1395	519898	KAMAL KISHORE DHIMAN	HPSEBL
1396	519915	KULDIP CHAND	FINANCE (T&A)
1397	519953	MANU THKAUR	DC OFFICE UNA
1398	519957	MOHAMMAD ASLAM	STATE ELECTION COMMISSION
1399	519977	MUNISH KUMAR	DC OFFICE UNA
1400	519982	NARESH KUMAR	DC OFFICE UNA
1401	520016	PANKAJ SHARMA	DC OFFICE UNA
1402	520025	PARVEEN KUMARI	HPSEBL
1403	520074	RAJVEER SHARMA	DC OFFICE UNA
1404	520086	RAMESH CHAND	FOOD & CIVIL SUPPLIES
1405	520133	SACHIN KUMAR	HIGHER EDUCATION
1406	520139	SANDEEP KUMAR	HPSEBL
1407	520146	SANJEEV KUMAR	DC OFFICE KANGRA
1408	520148	SANJEEV KUMAR	DC OFFICE KANGRA
1409	520150	SANJEEV KUMAR SINGH	CO-OPERATION
1410	520160	SARITA KUMARI	HPSEBL

1411	520180	SHAM SUNDER	HIGHER EDUCATION
1412	520187	SHAYREE	SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
1413	520235	SUSHMA DEVI	DC OFFICE UNA
1414	520242	UPASANA NEGI	TECHNICAL EDUCATION
1415	520264	VINOD KUMAR	LAND RECORDS
1416	520265	VINOD KUMAR	CO-OPERATION
1417	520278	YASH PAL	HP PWD

WHEREAS the above mentioned Civil Writ Petition Original Application under Article 226 of the Constitution of India filed by the counsel for the petitioner having been presented in this court by the Petitioner through Ld. Counsel(s) Anand Sharma II, Ajay Chauhan, Ajay Singh Kashyap, admitted on **28-12-2019**. Therefore, notice is hereby given to you that the petition is set down for listing in this court on **17-05-2021(Actual Date)** and that if you wish to urge anything in reply to the petition or the rule nisi issued against you, you are at liberty to do so within 28 days of the service of this notice by filing your written statement in this Court either in person or through an Advocate duly instructed and a copy of your written statement be supplied to the counsel for the petitioner within the aforesaid period.

The Stay matter in XXXXX also fixed for hearing on XXXXX.

If you do not file written statement on or before the aforesaid date, it will be presumed that you have none to file and the case will be listed for hearing before Hon'ble Judge, without the written statement.

*Given under my hand and the seal of this Court this 5<sup>th</sup> April, 2021.*

Sd/-  
Section Officer (Judicial)

***Note.—You are hereby informed that the free legal services from the State Legal Services Authorities, High Court Legal Services Committees, District Legal Services Authorities and Taluka Legal Services Committees, as per eligibility criteria, are available to you and in case you are eligible and desire to avail to the free legal services, you may contact any of the above Legal Services Authorities /Committees.***

**FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT, KINNAUR AT  
RECKONG PEO, HIMACHAL PRADESH**

**NOTIFICATION**

*Dated: Kinnaur, the 23rd March, 2021*

**No. FDS-KNR(S)12-1/82-VI-5870-5920.**—In supersession of all previous notifications and in exercise of the powers conferred on me under Clause 3(1)(e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Hem Raj Bairwa, IAS, District Magistrate, Kinnaur at Reckong Peo (H.P.) with a view to make the following items available to the public/Consumers at reasonable rates in the market, do hereby fix the maximum retail prices (inclusive of all taxes and

other incidental charges) in respect of the following items that may be charged by a dealer or a producer in District Kinnaur with immediate effect.

Sl. No. of the article as per schedule-1 of the said order	Name of the articles			Maximum Retail Prices
12	<b>Meat/ Chicken/Fish</b>			
	1.	Meat Goat/ Bheda	Per Kg.	450
	2.	Meat Pig	Per Kg.	230
	3.	Chicken dressed/Skinless	Per Kg.	230
	4.	Broiler Dressed/Skinless	Per Kg.	230
	5.	Fish Fried	Per Kg.	300
	6.	Fish Unfried	Per Kg.	200
	7.	Chicken Pakora	Per Kg.	300
17	<b>Cooked Food served in Dhabas (Not Registered with Tourism Department)</b>			
	1.	Full Diet ( Rice, Chapati with Dal, Sabji & Karhi )		80.00
	2.	Half Diet ( One Plate Rice with Dal & Sabji )		40.00
	3.	Chapati Tawa ( Per Chapati )		5.00
	4.	Chapati Tanduri (Per Chapati)		7.00
	5.	Stuffed Prantha with Pickle (Per Prantha)		20.00
	6.	Dal Makhni		70.00
	7.	Dal Fried		50.00
	8.	Raita		25.00
	9.	Chana Puri (2 with veg./Curd)		50.00
	10.	Palk/ Matar/Shahi/ Paneer (Per Plate )		80.00
	11.	Meat ( 5 pieces weighing 200 Grm ) Per Plate with curry		120.00
	12.	Chicken ( 5 pieces weighing 200 Grm ) Per Plate with curry		100.00
	13.	Samosa		10.00
	14.	Tea		10.00
	15.	Chana with 2 Samosas		40.00
	16.	Chowmein ( Full Plate ) Veg.		80.00
	17.	Chowmein ( Half Plate ) Veg.		40.00
	18.	Thukpa ( Full Plate ) Veg.		80.00
	19.	Thukpa ( Half Plate) Veg.		40.00
	20.	Chowmein (Full Plate) Non-Veg.		100.00
	21.	Chowmein (Half Plate) Non-Veg.		50.00
	22.	Thukpa ( Full Plate) Non-Veg.		100.00
	23.	Thukpa (Half Plate) Non-Veg.		50.00
	24.	Mo-Mo (Full Plate) Non-Veg.		100.00
	25.	Mo-Mo (Half Plate) Non-Veg.		50.00
	26.	Mo-Mo (Full Plate) Veg.		80.00
	27.	Mo-Mo (Half Plate) Veg.		40.00

18	<b>Milk/Curd/Paneer</b>		
	1.	Milk (Per Litre)	45.00
	2.	Boiled Milk	50.00
	3.	Paneer (Cottage Cheese) Per KG	280.00
	4.	Curd (Per Kg.)	60.00
	5.	Milk Packed, per litre	As per printed rate
20	6.	Paneer Packed	As per printed rate
	<b>BOTTLED BEVERAGES</b>		
20	1.	Cold Drink	As per printed rate

**NOTE:—**

1. Every dealer/shopkeeper shall issue cash memo to each consumer and keep duplicate copy of the same for inspection purpose.
2. The dealer/shopkeeper shall display the price list of these commodities at the entrance/ conspicuous place in “ DEVNAGRI ” script at their business premises, which shall be signed and dated by the Owner/ Partner/ Manager.
3. The Notification shall be valid for a period of one month from the date of its publication in the Official Gazette.

Sd/-  
( HEM RAJ BAIRWA ) IAS  
District Magistrate, Kinnaur at Reckong Peo.

कार्यालय उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी (हि० प्र०)

अधिसूचना

दिनांक 08 अप्रैल, 2021

**क्रमांक: पीसीएन-एमएनडी-निर्वाचन-1/2021-1355-74.**—इस कार्यालय द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के नोटिस दिनांक 10-03-2021 के दृष्टिगत जिला मण्डी के अन्तर्गत विकास खण्ड धर्मपुर के प्रधान पद और पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन सम्पन्न हो चुके हैं, तथा निर्वाचन परिणाम सम्बन्धित सहायक निर्वाचन अधिकारियों द्वारा घोषित किए जा चुके हैं।



अतः मैं, ऋग्वेद ठाकुर (भा0प्र0से0), उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 तथा सामान्य नियम, 1997 के नियम 124 के अनुसरण में जिला मण्डी की सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं के नव-निर्वाचित पदाधिकारियों के नाम व पते जन साधारण की जानकारी हेतु संलग्न सारणी अनुसार प्रकाशित करता हूँ।

ऋग्वेद ठाकुर (भा0प्र0से0),  
उपायुक्त,  
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

दिनांक 07-04-2021 को सम्पन्न निर्वाचन में विकास खण्ड धर्मपुर की ग्राम पंचायतों के नव-निर्वाचित प्रधानों और पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के निर्वाचन में नव-निर्वाचित पदाधिकारियों के नाम और पते के प्रकाशन की सारणी

क्र0 सं0	पंचायत समिति/ विकास खण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	पद	निर्वाचित पंचायत पदाधिकारी का नाम व पता	निर्वाचित क्षेत्र की संख्या व नाम
1	2	3	4	5	6
1.	धर्मपुर	बनाल	प्रधान	श्रीमती डौली देवी पत्नी श्री सन्तोष कुमार, गांव रियूर, डा0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175040.	ग्राम पंचायत बनाल (प्रधान)
2.	धर्मपुर	बसन्तपुर	प्रधान	श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री सन्तोष कुमार, गांव रसैण, डा0 बसन्तपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175037.	ग्राम पंचायत बसन्तपुर (प्रधान)
3.	धर्मपुर	बहरी	प्रधान	श्रीमती पुजा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार, गांव अप्पर थाती, डा0 कोट, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175040.	ग्राम पंचायत बहरी (प्रधान)
4.	धर्मपुर	बैरी	प्रधान	श्रीमती अंजु देवी पत्नी श्री राज कुमार, गांव अप्पर बैरी, डा0 कोदुआं, तह0 सन्धोल, जिला मण्डी, हि0प्र0-176090.	ग्राम पंचायत बैरी (प्रधान)
5.	धर्मपुर	भरौरी	प्रधान	श्रीमती नीता कुमारी पत्नी श्री अनील कुमार, गांव व डा0 कोट, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175040.	ग्राम पंचायत भरौरी (प्रधान)
6.	धर्मपुर	भूर	प्रधान	श्री विपन कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द, गांव भूर, डा0 झंगी, तह0 सन्धोल, जिला मण्डी, हि0प्र0-176090.	ग्राम पंचायत भूर (प्रधान)

7.	धर्मपुर	बिंगा	प्रधान	श्रीमती तम्बो देवी पत्नी श्री बलवन्त सिंह, गांव व डा0 मढी, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175050.	ग्राम पंचायत बिंगा (प्रधान)
8.	धर्मपुर	ब्रांग	प्रधान	श्री बलदेव चन्द पुत्र श्री दुर्गा दास, गांव व डा0 ब्रांग, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175024 <sup>ण</sup>	ग्राम पंचायत ब्रांग (प्रधान)
9.	धर्मपुर	चनौता	प्रधान	श्रीमती सविता पुत्री श्री अमी चन्द, गांव व डा0 छात्र, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175024.	ग्राम पंचायत चनौता (प्रधान)
10.	धर्मपुर	दतवाड	प्रधान	श्री वीर चन्द पुत्र श्री साजु राम, गांव लसराणा, डा0 व तह0 सन्धोल, जिला मण्डी, हि0प्र0-176090.	ग्राम पंचायत दतवाड (प्रधान)
11.	धर्मपुर	धलारा	प्रधान	श्रीमती शालू देवी पत्नि श्री अनील कुमार, गांव व डा0 धलारा, तह0 सन्धोल, जिला मण्डी, हि0प्र0-176090.	ग्राम पंचायत धलारा (प्रधान)
12.	धर्मपुर	धर्मपुर	प्रधान	श्रीमती ज्योती देवी पत्नी श्री प्रवीण कुमार, गांव छपाणु, डा0 व तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175040.	ग्राम पंचायत धर्मपुर (प्रधान)
13.	धर्मपुर	धवाली	प्रधान	श्री बलदेव पुत्र श्री लश्करी राम, गांव तरोहला, डा0 धवाली, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175040.	ग्राम पंचायत धवाली (प्रधान)
14.	धर्मपुर	ग्रौडू	प्रधान	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री अत्तर सिंह, गांव व डा0 ग्रौडू, उप तह0 टिहरा, जिला मण्डी, हि0प्र0-175026.	ग्राम पंचायत ग्रौडू (प्रधान)
15.	धर्मपुर	घनाला	प्रधान	श्री कशमीर सिंह पुत्र श्री प्रभदयाल, गांव अप्पर घनाला, डा0 व तह0 सन्धोल, जिला मण्डी, हि0प्र0-176090.	ग्राम पंचायत घनाला (प्रधान)
16.	धर्मपुर	ग्रयोह	प्रधान	श्री बक्सी राम पुत्र श्री मंहत राम, गांव व डा0 कांगो का गहरा, उप तह0 टिहरा, जिला मण्डी, हि0प्र0-175024.	ग्राम पंचायत ग्रयोह (प्रधान)
17.	धर्मपुर	गवैला	प्रधान	श्री पंकज कुमार पुत्र श्री दलीप सिंह, गांव छेज, डा0 व तह0 सन्धोल, जिला मण्डी, हि0प्र0-176090.	ग्राम पंचायत गवैला (प्रधान)

18.	धर्मपुर	खनौड	प्रधान	श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द, गांव खनौड, डा0 स्योह, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175051.	ग्राम पंचायत खनौड (प्रधान)
19.	धर्मपुर	कुन	प्रधान	श्री रूप लाल पुत्र श्री भगत राम, गांव कुन, डा0 टौरखोला, तह0 सन्धोल, जिला मण्डी, हि0प्र0-176090.	ग्राम पंचायत कुन (प्रधान)
20.	धर्मपुर	कोदुआं	प्रधान	श्रीमती आशा कुमारी पत्नी श्री अनील कुमार, गांव व डा0 कोदुआं, तह0 सन्धोल, जिला मण्डी, हि0प्र0-176090.	ग्राम पंचायत कोदुआं (प्रधान)
21.	धर्मपुर	लंगेहड	प्रधान	श्री संजय कुमार पुत्र श्री नेक राम, गांव व डा0 गियुण, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175040.	ग्राम पंचायत लंगेहड (प्रधान)
22.	धर्मपुर	लौंगणी	प्रधान	श्रीमती मीना कुमारी पत्नी श्री देश राज, गांव व डा0 लौंगणी, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175025.	ग्राम पंचायत लौंगणी (प्रधान)
23.	धर्मपुर	नेरी	प्रधान	श्री सुमन कुमार पुत्र श्री अमी चन्द, गांव जमुला, डा0 व तह0 सन्धोल, जिला मण्डी, हि0प्र0-176090.	ग्राम पंचायत नेरी (प्रधान)
24.	धर्मपुर	पपलोग	प्रधान	श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी श्री पवन कुमार, गांव खरोह डा0 पपलोग, तह0 सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0-175024.	ग्राम पंचायत पपलोग (प्रधान)
25.	धर्मपुर	सकलाना	प्रधान	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री मसदी राम, गांव व डा0 सकलाना, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175050.	ग्राम पंचायत सकलाना (प्रधान)
26.	धर्मपुर	समौड	प्रधान	श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री दामोदर दास, गांव तडून, डा0 समौड, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175050.	ग्राम पंचायत समौड (प्रधान)
27.	धर्मपुर	सन्धोल	प्रधान	श्री कुलदीप चन्द पुत्र श्री सन्त राम, गांव हटनाला बाजार, डा0 व तह0 सन्धोल, जिला मण्डी, हि0प्र0-176090.	ग्राम पंचायत सन्धोल (प्रधान)
28.	धर्मपुर	सधोट	प्रधान	श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री रवी कुमार, गांव रोसो, डा0 सधोट, तह0 सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0-175037.	ग्राम पंचायत सधोट (प्रधान)

29.	धर्मपुर	सरी	प्रधान	श्री कशमीर सिंह पुत्र श्री भलखु राम, गांव सनौर, डा0 सरी, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175025.	ग्राम पंचायत सरी (प्रधान)
30.	धर्मपुर	सरसकान	प्रधान	श्री उमेश कुमार पुत्र श्री भोलू राम, गांव तडा, डा0 बरोटी, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0। 175040	ग्राम पंचायत सरसकान (प्रधान)
31.	धर्मपुर	स्योह	प्रधान	श्रीमती प्रिति देवी पत्नि श्री नरेश कुमार, गांव स्योह, डा0 स्योह, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175051.	ग्राम पंचायत स्योह (प्रधान)
32.	धर्मपुर	सोहर	प्रधान	श्रीमती इन्दिरा देवी पत्नि श्री राज सिंह, गांव सोहर, डा0 व तह0 सन्धोल, जिला मण्डी, हि0प्र0-176090.	ग्राम पंचायत सोहर (प्रधान)
33.	धर्मपुर	तन्यार	प्रधान	श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री हिरा राम, गांव व डा0 नलयाणा, उप तह0 टिहरा, जिला मण्डी, हि0 प्र0-175026.	ग्राम पंचायत तन्यार (प्रधान)
34.	धर्मपुर	टौरखोला	प्रधान	श्रीमती सरला देवी पत्नि श्री रवि कुमार जसवाल, गांव व डा0 टौरखोला, तह0 सन्धोल, जिला मण्डी, हि0प्र0-176090.	ग्राम पंचायत टौरखोला (प्रधान)
35.	धर्मपुर	कोट	प्रधान	श्रीमती रीना कुमारी पत्नि श्री राकेश कुमार, गांव बान्दल, डा0 व उप तह0 टिहरा, जिला मण्डी, हि0प्र0-175026.	ग्राम पंचायत कोट (प्रधान)
36.	धर्मपुर	टिहरा	प्रधान	श्रीमती अंजु देवी पत्नि श्री राजीव, गांव लगयार, डा0 टिहरा, उप तह0 टिहरा, जिला मण्डी, हि0प्र0-175026.	ग्राम पंचायत टिहरा (प्रधान)
37.	धर्मपुर	देवगढ	प्रधान	श्री संजीव कुमार पुत्र श्री गंगा राम, गांव देवगढ, डा0 चोलनगढ, तह0 सन्धोल, जिला मण्डी, हि0प्र0-176090.	ग्राम पंचायत देवगढ (प्रधान)
38.	धर्मपुर	भदेहड	प्रधान	श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री सन्त राम, गांव भदेहड, डा0 कुज्जाबल्ह, तह0 सन्धोल, जिला मण्डी, हि0प्र0-176090.	ग्राम पंचायत भदेहड (प्रधान)
39.	धर्मपुर	कमलाह	प्रधान	श्री सुरेन्द्र कुमार भरमौरीया पुत्र श्री सन्त राम, गांव व डा0 कमलाह, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175050.	ग्राम पंचायत कमलाह (प्रधान)
40.	धर्मपुर	चौकी	प्रधान	श्री मुरारी लाल पुत्र श्री परमा राम, गांव चौकी, डा0 टौरजाजर, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175040.	ग्राम पंचायत चौकी (प्रधान)

41.	धर्मपुर	तौरजाजर	प्रधान	श्रीमती रीता कुमारी पत्नी श्री संजय कुमार, गांव चह, डा0 तौरजाजर, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175040.	ग्राम पंचायत तौरजाजर (प्रधान)
42.	धर्मपुर	डरवाड	प्रधान	श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, गांव व डा0 डरवाड, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175025.	ग्राम पंचायत डरवाड (प्रधान)
43.	धर्मपुर	घरवासडा	प्रधान	श्रीमती बिट्टो देवी पत्नि श्री प्रकाश चन्द, गांव व डा0 घरवासडा, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175025.	ग्राम पंचायत घरवासडा (प्रधान)
44.	धर्मपुर	सज्याओ पिपलू	प्रधान	श्रीमती सरीता देवी पत्नि श्री केवल सिंह ठाकुर, गांव गरौडू, डा0 सज्याओपिपलू, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175025.	ग्राम पंचायत सज्याओपिपलू (प्रधान)
45.	धर्मपुर	जोढन	प्रधान	श्रीमती किरण लता पत्नि श्री राकेश कुमार, गांव भेडी, डा0 सज्याओपिपलू, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175025.	ग्राम पंचायत जोढन (प्रधान)
46.	धर्मपुर	पिपली (भराडी)	प्रधान	श्रीमती अंजना पत्नि श्री सुभाष, गांव कोहण, डा0 सज्याओपिपलू, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175025.	ग्राम पंचायत पिपली (भराडी) (प्रधान)
47.	धर्मपुर	सिद्धपुर	प्रधान	श्रीमती रीता देवी पत्नि श्री याशपाल, गांव व डा0 सिद्धपुर, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175040.	ग्राम पंचायत सिद्धपुर (प्रधान)
48.	धर्मपुर	ततोहली परडाना	प्रधान	श्रीमती ममता देवी पत्नि श्री प्रदीप कुमार, गांव मलहोड, डा0 सिद्धपुर, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175040.	ग्राम पंचायत ततोहली परडाना (प्रधान)
49.	धर्मपुर	कोठी चौलथरा	प्रधान	श्री मेहर चन्द पुत्र श्री जिणु राम, गांव कोठीवासी, डा0 चोलथरा, तह0 सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0-175037.	ग्राम पंचायत कोठी चौलथरा (प्रधान)
50.	धर्मपुर	सरौन	प्रधान	श्री पवन ठाकुर पुत्र श्री महाजन, गांव चलैली, डा0 चोलथरा, तह0 सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0-175037.	ग्राम पंचायत सरौन (प्रधान)
51.	धर्मपुर	तनेहड	प्रधान	श्री दलेर सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह, गांव सकरैण, डा0 तनेहड, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175026.	ग्राम पंचायत तनेहड (प्रधान)

52.	धर्मपुर	कुम्हारडा	प्रधान	श्रीमती मीना कुमारी पत्नि श्री बंशी राम, गांव कुम्हारडा, डा0 पैहड, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175040.	ग्राम पंचायत कुम्हारडा (प्रधान)
53.	धर्मपुर	बनेहरडी	प्रधान	श्रीमती मीरा देवी पत्नि श्री जय देव, गांव बनेहरडी, डा0 पैहड, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175040.	ग्राम पंचायत बनेहरडी (प्रधान)
54.	धर्मपुर	पैहड	प्रधान	श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री रणजीत, गांव कौशल, डा0 पैहड, तह0 धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0-175040.	ग्राम पंचायत पैहड (प्रधान)
55.	सदर	सदोह	उप-प्रधान	श्री चमन सिंह ठाकुर पुत्र श्री दिलाराम, गांव लस्वाई खड्ड, डा0 बरयारा, तह0 कोटली, जिला मण्डी, हि0 प्र0-175052. (निर्विरोध)	ग्राम पंचायत सदोह (उप-प्रधान)
56.	गोपालपुर	बरच्छवाड	वार्ड सदस्या	श्रीमती भारती कुमारी पत्नी श्री रणवीर, गांव बरच्छवाड, डा0 सुरजपुरवाडी, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0-175024. (निर्विरोध)	वार्ड नं0 2- बरच्छवाड-2
57.	सुन्दरनगर	अरठी	वार्ड सदस्या	श्रीमती निक्की देवी पत्नी श्री साजु, गांव पुघडू, डा0 व तह0 सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0-175018. (निर्विरोध)	नं0 5 थला-II
58.	द्रंग	बथेरी	वार्ड सदस्या	श्रीमती श्यामी देवी पत्नी श्री पूर्ण चन्द, गांव बल्हधार, डा0 बथेरी, त0 कटौला, जिला मण्डी, हि0 प्र0-175005. (निर्विरोध)	वार्ड नं0 5 बल्हधार
59.	करसोग	मनोला नरास	वार्ड सदस्या	श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री तेजराम, गांव सेओल, डा0 चुराग, त0 करसोग, जिला मण्डी, हि0 प्र0-175010. (निर्विरोध)	वार्ड नं0 2 मनोला 1
60.	चौन्तडा	सगनेहड	वार्ड सदस्या	श्रीमती सोनिया रानी पत्नी स्व0 श्री विनोद कुमार, गांव सगनेहड हार, डा0 चौन्तडा, तह0 जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0-175032.	वार्ड नं0 3 सगनेहड-3

ब अदालत श्री विपिन वर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी पच्छाद,  
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री बाबू राम पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी काली लोहाड़ी, डाकघर बनाह की सैर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता



दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है श्री बाबू राम पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी काली लोहाड़ी, डाकघर बनावह की सैर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनके बेटे दीपक कुमार पुत्र श्री बाबू राम जन्म तिथि 07-12-2005 का पंजीकरण ग्राम पंचायत बनावह धिन्नी के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इसका पंजीकरण ग्राम पंचायत में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इनके नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-04-2021 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 22-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री विपिन वर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी पच्छाद,  
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री सुनील दत्त शर्मा पुत्र श्री मोहन दत्त शर्मा, निवासी भाट का गांव, डाकघर भैलन, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुनील दत्त शर्मा पुत्र श्री मोहन दत्त शर्मा, निवासी भाट का गांव, डाकघर भैलन, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 12-10-1983 का पंजीकरण ग्राम पंचायत जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इसका पंजीकरण ग्राम पंचायत में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इनके नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-04-2021 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर

सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 22-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री विपिन वर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी पच्छाद,  
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री मोहर सिंह पुत्र श्री आलम सिंह, निवासी गडेरन, डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मोहर सिंह पुत्र श्री आलम सिंह, निवासी गडेरन, डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी बेटी लक्ष्मी देवी पुत्री श्री मोहर सिंह जन्म तिथि 02-02-2020 का पंजीकरण ग्राम पंचायत काटली के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इसका पंजीकरण ग्राम पंचायत में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इनके नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-04-2021 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 22-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**In the Court of Sh. Rajnesh Kumar, H.A.S., Marriage Officer (S.D.M.), Nahan, District  
Sirmaur, Himachal Pradesh**

**NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT**

Whereas, Shri Tahir Khan s/o Shri Mohd. Ali, r/o Village Kaulan Wala Bhud, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. & Smt. Sonia Chauhan d/o Sh. Joginder Singh, r/o Village Kaulan Wala Bhud, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 23-02-2021 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Shri Tahir Khan s/o Shri Mohd. Ali, r/o Village Kaulan Wala Bhud, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. & Smt. Sonia Chauhan d/o Sh. Joginder Singh, r/o Village Kaulan Wala Bhud, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 20th day of March, 2021.

Seal.

RAJNESH KUMAR (HAS),  
Marriage Officer (S.D.M.), Nahan,  
District Sirmaur (H.P.).

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)**

प्रकरण संख्या 12/21

श्री सुनिल पुत्र श्री चेत राम, निवासी जीजला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुनिल पुत्र श्री चेत राम, निवासी जीजला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पिता की मृत्यु तिथि 20-07-1994 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत शिवा में अपनी ऊपर वर्णित पिता की मृत्यु तिथि 20-07-1994 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को चेत राम की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 23-04-2021 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत शिवा में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-03-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

समक्ष श्री आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,  
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 :-02 / 2021

तारीख पेशी : 27-04-2021

श्री जगत सिंह पुत्र सनिया राम, निवासी जबडोग, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय:-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री जगत सिंह पुत्र सनिया राम, निवासी जबडोग, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र अमित कुमार जिसकी जन्म तिथि 04-09-2006 है, जो ग्राम पंचायत रणफुआ जबडोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 27-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबले गौर न होगा तथा सायल के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-03-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर।

आत्मा राम नेगी,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

समक्ष श्री आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,  
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 :-01 / 2021

तारीख पेशी : 27-04-2021

श्री बहादुर सिंह पुत्र नान्दू, निवासी संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय:-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री बहादुर सिंह पुत्र नान्दू, निवासी संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधिन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री सरिता देवी जिसकी जन्म तिथि 29-01-1987 है, जो ग्राम पंचायत संगड़ाह के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 27-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबले गौर न होगा तथा सायल की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-03-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर।

आत्मा राम नेगी,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री बलजीत सिंह पुत्र श्री माम राज, निवासी बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)  
वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बलजीत सिंह पुत्र श्री माम राज, निवासी बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र की जन्म तिथि 25-02-2014 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के

शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 25-02-2014 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री राज की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 26-04-2021 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त जन्म तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-03-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

### ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

प्रकरण संख्या 13/21

श्री श्याम लाल पुत्र अमर सिंह, निवासी लिपटवार (टौंरु), तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री श्याम लाल पुत्र अमर सिंह, निवासी लिपटवार (टौंरु), तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र की जन्म तिथि 08-01-2018 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत टौंरु (डांडांआज) में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 08-01-2018 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को लक्ष्य धीमान की जन्म तिथि ग्राम पंचायत, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 26-04-2021 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत टौंरु (डांडांआज) में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-03-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।